



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 4—मार्च 10, 2012, शनिवार/फाल्गुन 14—फाल्गुन 20, 1933
No. 10] NEW DELHI, MARCH 4—MARCH 10, 2012, SATURDAY/PHALGUNA 14—PHALGUNA 20, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 54.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय सूचना सेवा (समूह क) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सूचना सेवा (समूह क) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) यह 2 फरवरी, 2008 से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय सूचना सेवा (समूह क) नियम, 1987 (जिन्हें मूल नियम कहा गया है) की अनुसूची 5 के स्तंभ 3 में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) से संबंधित चयन और न्यूनतम अर्हक क्षेत्र के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“टिप्पण : ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अधिकारी जो आईआईएस समूह ‘क’ के कनिष्ठ टाइम स्केल में प्रोन्नति की पद्धति से सेवा में प्रविष्ट होते हैं पर कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा परंतु यह कि उन्होंने उन अधिकारियों के साथ जो सीधी भर्ती की पद्धति के माध्यम से सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रविष्ट हो गए हैं के साथ-साथ ज्येष्ठता के नियमों का अनुसरण करते हुए समूह “क” सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश किया है।”

सप्टरीकारक ज्ञापन

भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) (समूह क) नियम, 1987 का भारतीय सूचना सेवा (समूह क) (संशोधन) नियम, 2008 द्वारा और संशोधन किया गया था जिसे भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 2 फरवरी, 2008 को प्रकाशन किया गया था। कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में अधिकारियों को जो समूह 'क' सेवा में सीधी भर्ती के साथ-साथ सीधी भर्ती से भिन्न पद्धतियों द्वारा प्रविष्ट हुए थे, को अकृत्यक चयन श्रेणी प्रदत्त करने का उपबंध तारीख 2-2-2008 को अधिसूचित पूर्वोक्त संशोधन से पूर्व विद्यमान था। (संशोधन) नियम, 2008 द्वारा यथासंशोधित मूल नियमों की अनुसूची 5 के स्तंभ 3 में वर्णित कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यक चयन श्रेणी) में नियुक्ति के लिए चयन और न्यूनतम अर्हता का क्षेत्र आईआईएस समूह 'क' के अधिकारियों को लागू नहीं है जो सीधी भर्ती से भिन्न तरीकों से अर्थात् आईआईएस समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में पदोन्नति से प्रविष्ट होते हैं पर लागू नहीं होता है। ऐसे कुछ आईआईएस अधिकारी हैं जो भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' में पदोन्नति की पद्धति से प्रविष्ट हुए हैं और जिनकी पदोन्नति आईआईएस समूह 'क' के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में तारीख 2-2-2008 के पश्चात् कर दी गई है। उन्हें उनके कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के गैर कृत्यकारी चयन श्रेणी में रखे जाने के वैध अधिकार से गैर कृत्यकारी चयन श्रेणी में (संशोधन) नियम, 2008 द्वारा संशोधित मूल नियमों में समर्थकारी उपबंध के अभाव में वर्चित रखा गया है। ऐसे कुछ अधिकारी भी हैं जिन्हें आईआईएस समूह 'क' के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में 2-2-2008 के पश्चात् पदोन्नति दी गई है और जो कि सेवा से अकृत्यक चयन श्रेणी के अभिलाभ प्राप्त किए बिना सेवानिवृत्त हो गए हैं या उन्होंने सेवा छोड़ दी है। इसलिए यह सुनिश्चय करने के लिए कि ऐसे अधिकारियों के हित को खतरे में न डाला जाए और उन्हें अकृत्यक चयन श्रेणी प्राप्त करने के वैध अधिकार को पुनः प्रदान करने के लिए और सत्ता का अनुरक्षण करने के लिए यह न्यायोचित समझा गया है कि इन नियमों को 2-2-2008 वह तारीख जिसको भारतीय सूचना सेवा (समूह क) (संशोधन) नियम, 2008 प्रवृत्त हुए थे से भूतलक्षी प्रभाव दिया जाए। संशोधन को दिया गया भूतलक्षी प्रभाव सरकारी सेवकों के किसी खंड या वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

[फा. सं. ए-42012/2/2009-आईआईएस]

नीरज कुमार, अवर सचिव

टिप्पण — मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 153, तारीख 7 मार्च, 1987 प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्तर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा किए गए थे—

- (i) अधिसूचना सं. ए-42012/3/87-सीआईएस तारीख 28 सितम्बर, 1989
- (ii) सा.का.नि. 581, तारीख 12 अक्टूबर, 1991
- (iii) सा.का.नि. 92(अ), तारीख 28 जनवरी, 1992
- (iv) सा.का.नि. 184, तारीख 19 सितम्बर, 1998
- (v) अधिसूचना सं. ए-42012/2/2000-आईआईएस, तारीख 4 जुलाई, 2002
- (vi) सा.का.नि. 22, तारीख 2 फरवरी, 2008
- (vii) अधिसूचना सं. ए-42012/1/2009-आईआईएस, तारीख 16 सितम्बर, 2010

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd February, 2012

G.S.R. 54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Information Service (Group 'A') Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Information Service (Group 'A') Amendment Rules, 2012.
- (2) They shall come into force with effect from 2nd February, 2008.
2. In the Indian Information Service (Group 'A') Rules, 1987 (referred to as the principal rules), in Schedule V, in column 3 relating to the field of selection and minimum qualifying service for appointment to Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade), the following Note shall be inserted at the end, namely :—

“Note : The Junior Administrative Grade officers who entered the Service by the method of promotion in the Junior Time Scale of IIS Group 'A' shall also be considered eligible for appointment in the Junior Administrative Grade (Non Functional Selection Grade), provided they have entered the fourteenth year of Service in Group 'A' by following the Rules governing seniority along with officers who entered the fourteenth year of service through the method of direct recruitment.”

Explanatory Memorandum

The Indian Information Service (IIS) (Group 'A') Rules, 1987 were further amended vide Indian Information Service (Group 'A') (Amendment) Rules, 2008, which were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) on 2nd February, 2008. The provision for grant of Non-Functional Selection Grade to the officers in the Junior Administrative Grade, who entered into Group 'A' of the Service through direct recruitment as well as by methods other than direct recruitment, was in existence prior to above amendment notified on 02-02-2008. The field of selection and minimum qualifying service for appointment to Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) mentioned in Column (3) of Schedule V to the principal rules as amended vide (Amendment), Rules, 2008 is not applicable to the officers of Junior Administrative Grade of IIS Group 'A' who have entered into the service other than by direct recruitment, i.e., by promotion, to Junior Grade of IIS Group 'A'. There are some IIS officers who have entered the Indian Information Service Group 'A' by the method of promotion and have been promoted to the Junior Administrative Grade of IIS Group 'A' after 02-02-2008. They have been deprived of their legitimate right for placement in the Non-Functional Selection Grade (NFSG) of JAG due to absence of an enabling provision for grant of NFSG to them in the principal rules amended vide (Amendment) Rules, 2008. There are also a few officers who have been promoted to JAG of IIS Group 'A' after 02-02-2008 and have since retired or left the service without getting the benefit of NFSG. Hence, in order to ensure that the interest of such officers is not jeopardized and in order to restore their legitimate right for grant of NFSG and to maintain continuity, it is considered justified to give retrospective effect to these rules, with effect from 02-02-2008, the date on which the Indian Information Service (Group 'A') (Amendment) Rules, 2008 had come into force. The retrospective effect given to the amendment will not affect any section or class of Government servants adversely.

[F. No. A-42012/2/2009-IIS]

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number G.S.R. 153, dated the 7th March, 1987 and subsequently amended vide following notification numbers:

- (i) Notification No. A-42012/3/87-CIS dated the 28th September, 1989
- (ii) GSR 581, dated the 12th October, 1991
- (iii) GSR 92(E), dated the 28th January, 1992
- (iv) GSR 184, dated the 19th September, 1998
- (v) Notification No. A-42012/2/2000-IIS dated the 4th July, 2002
- (vi) GSR 22, dated the 2nd February, 2008.
- (vii) Notification No. A-42012/1/2009-IIS dated 16th September, 2010.

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2012

सा.का.नि. 55.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांख्यिकी विभाग (श्रेणी 4) भर्ती नियम, 1972 का अधिकांश करते हुए उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकांश से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, बहुकार्य कर्मचारिवृंद, समूह 'ग' भर्ती नियम, 2012 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द	84*(2012) *कार्यभार के आधार पर परि-वर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच। टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

(7)

(8)

(9)

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य

लागू नहीं होता

दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	(12)		(13)	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p>				
1. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय	—अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।		
2. अवर सचिव (प्रशासन), सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय	—सदस्य			
3. अवर सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय	—सदस्य			

[फा. सं. ए-12030/3/2010-प्रशा. II]
एस. के. राय, अवर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 5th March, 2012

G.S.R. 55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Statistics (Class IV posts), Recruitment Rules, 1972, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Multi-Tasking Staff, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff	84* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-I, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 27 years of age. Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2 : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees			Period of probation, if any	
(7)			(8)		(9)
Matriculation from a recognised Board or equivalent.			Not applicable		Two years
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In the case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(10)			(11)		
By direct recruitment			Not applicable		

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—	Not applicable.
1. Director/Deputy Secretary (Administration), —Chairman Ministry of Statistics and Programme Implementation	
2. Under Secretary (Administration), Ministry of Statistics and Programme Implementation —Member	
3. Under Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation —Member	

[F.No.A-12030/3/2010-Ad.II]

S. K. ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2012

सा.का.नि. 56.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी में उच्च श्रेणी लिपिक/क्षेत्रीय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी, उच्च श्रेणी लिपिक/क्षेत्रीय सहायक पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक/क्षेत्रीय सहायक	2*(2012) *कार्यभार के आधार पर परि-वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं;

(ii) जो अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों;

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12012/4/2011-प्रशा. II]

एस. के. रॉय, अवर सचिव

New Delhi, the 5th March, 2012

G.S.R. 56.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk/Field Assistant in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Academy of Statistical Administration, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Academy of Statistical Administration, Upper Division Clerk/Field Assistant, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upper Division Clerk/Field Assistant	2* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Non-selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits					
		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
		(7)		(8)	
Not applicable		Not applicable		(9)	
		Not applicable		Not applicable	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

(10)

Deputation (including short-term contract)

(11)

Deputation (including short term contract) :

Officers of the Central Government or State Governments, Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings,—

- (i) holding analogous post on regular basis; or
- (ii) with eight years' regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent;

Note 1 : The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3 : For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Not applicable

Not applicable.

[F. No. A-12012/4/2011-Admn. II]

S. K. ROY, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2012

सा.का.नि. 57.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशु स्वास्थ्य की राष्ट्रीय संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पशु स्वास्थ्य की राष्ट्रीय संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में,—

(क) स्तंभ (6) और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (7) में '18 से 27 वर्ष के बीच' प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

' (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) '।

[फा. सं. 44-1/2006-प्रशा. III]

परमजीत सिंह, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 204, तारीख 8 नवम्बर, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 1st March, 2012

G.S.R. 57.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Institute of Animal Health, Laboratory Assistant (Group 'C') Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Institute of Animal Health, Laboratory Assistant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Institute of Animal Health, Laboratory Assistant (Group 'C') Recruitment Rules, 2010, in the Schedule,—

(a) Column (6) and the entries therein shall be omitted;

(b) In Column (7), — after the entry “Between 18-27 years of age” the following entry shall be inserted, namely :—

‘(relaxable up to forty years for departmental candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time)’.

[F.No. 44-1/2006-A.III]

PARMIJT SINGH, Dy. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 204, dated the 8th November, 2010.